

हिंदी न्यूज़ › झारखंड › जमशेदपुर › बोड़ाम में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

# बोड़ाम में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

हिन्दुस्तान टीम, जमशेदपुर | Published By: Newswrap

• Last updated: Thu, 20 Aug 2020 07:23 PM



**1 / 2** पुलिस के एक टीम बनाकर बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोंटा साधुडीह में पिछले एक महीने से चल रहा नकली अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें गुरुवार को जेल भेज दिया...

पुलिस के एक टीम बनाकर बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोंटा साधुडीह में पिछले एक महीने से चल रहा नकली अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें गुरुवार को जेल भेज दिया जाएगा। वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वाणन के निर्देशानुसार हुई कार्रवाई में दो लोग भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी काजल कुमार दुबे ने बताया कि बोंटा के साधुडीह टोला में रिकू मंडल के घर में अवैध अंग्रेजी शराब बनाकर विभिन्न ब्रांडों के असली स्टीकर चिपकाकर बाजारों में बेचने का काम किया जा रहा था। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पुलिस की टीम ने बुधवार को शराब फैक्ट्री में छापेमारी की तो 400 बोतल अंग्रेजी शराब, 12 सौ खाली बोतल व 100 लीटर स्पिरिट के साथ मकान मालिक रिकू मंडल व मानगो निवासी जितेंद्र कुमार गुप्ता को पकड़कर थाने में ले आये हैं। छापेमारी टीम में पटमदा अंचल इंस्पेक्टर वीरेंद्र राजवंशी, एमजीएम थाना प्रभारी राकेश कुमार व बोड़ाम थाना प्रभारी काजल कुमार दुबे समेत अन्य कई पुलिस के जवान शामिल थे। इस संबंध में बोड़ाम थाना प्रभारी काजल कुमार दुबे के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

Source : <https://www.livehindustan.com/jharkhand/jamshedpur/story-fake-liquor-factory-busted-in-bodam-two-arrested-3432415.html>